

18(बी): भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र को बकाया ऋण

स्रोत	(₹ करोड़)						प्रतिशत संवृद्धि			
	मार्च के अंत तक			28 फरवरी तक			मार्च के अंत तक		28 फरवरी तक	
	2023	2024	2025	2024	2025	2026 P	2023 की तुलना में 2024	2024 की तुलना में 2025	2024 की तुलना में 2025	2025 की तुलना में 2026 अ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. गैर-खाद्य बैंक ऋण	1,36,55,330	1,64,09,083	1,82,07,441	1,62,81,855	1,80,82,860	2,06,71,435	20.2	11.0	11.1	14.3
2. गैर-बैंक स्रोत (2.1+2.2)	74,43,091	77,57,256	88,86,394	75,07,142	85,36,970	98,69,860	4.2	14.6	13.7	15.6
2.1 घरेलू स्रोत	53,95,038	56,59,037	66,37,411	54,17,711	62,55,311	73,10,680	4.9	17.3	15.5	16.9
2.1.1 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा कॉर्पोरेट बॉण्ड जारी करना	16,58,140	18,25,514	20,23,310	17,64,738	19,50,500	22,96,349	10.1	10.8	10.5	17.7
2.1.2 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक पत्र जारी करना	89,816	1,09,528	1,28,347	1,27,047	1,57,234	1,72,640	21.9	17.2	23.8	9.8
2.1.3 आवास वित्त कंपनियों द्वारा ऋण (बैंक ऋण निवल)	10,39,420	5,98,965	6,27,125	5,88,570	6,12,340	6,26,983	-42.4	4.7	4.0	2.4
2.1.4 आरबीआई - विनियमित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण	3,51,224	4,24,610	5,24,111	3,65,562	4,62,216	5,17,455	20.9	23.4	26.4	12.0
2.1.5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा ऋण (बैंक ऋण निवल)	22,56,439	27,00,421	33,34,518	25,71,794	30,73,021	36,97,252	19.7	23.5	19.5	20.3
2.2 विदेशी स्रोत	20,48,053	20,98,219	22,48,983	20,89,432	22,81,659	25,59,180	2.4	7.2	9.2	12.2
2.2.1 गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा बाह्य वाणिज्यिक ऋण	10,29,403	10,72,181	11,34,552	10,68,341	11,28,957	12,50,519	4.2	5.8	5.7	10.8
2.2.2 विदेश से अल्पकालिक ऋण	10,18,650	10,26,037	11,14,432	10,21,091	11,52,702	13,08,662	0.7	8.6	12.9	13.5
3. कुल ऋण (1+2)	2,10,98,421	2,41,66,339	2,70,93,835	2,37,88,997	2,66,19,830	3,05,41,295	14.5	12.1	11.9	14.7

अ: अनंतिम।

स्रोत संख्या: 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 और 2.2.1 से कॉलम 5, 6 और 7 के डेटा का कवरेज: नवंबर के अंत तक।

2.1.5 और 2.2.2: सितंबर के अंत तक।

- टिप्पणियाँ:**
- गैर-खाद्य बैंक ऋण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से संबंधित है और इसमें सहकारी बैंकों द्वारा दिये गए ऋण शामिल नहीं हैं। सहकारी बैंकों (जैसे, शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक) द्वारा प्रदत्त ऋण सहित, मार्च 2023, 2024 और 2025 के अंत तक गैर-खाद्य बैंक ऋण क्रमशः ₹1,46,22,252 करोड़, ₹1,74,63,674 करोड़ और 1,93,43,418 करोड़ था। तदनुसार, मार्च 2023, 2024 और 2025 के अंत में कुल बकाया ऋण क्रमशः ₹2,20,65,343 करोड़ 2,52,19,988 करोड़ और 2,82,28,852 करोड़ था।
 - गैर-बैंक स्रोतों के आंकड़ों में घरेलू स्रोतों के अंतर्गत इक्विटी और हाइब्रिड लिखतों के निर्गम और विदेशी स्रोतों के अंतर्गत इक्विटी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शामिल नहीं हैं।
 - कॉर्पोरेट बॉण्ड के मामले में, मार्च 2024 और 2025 के अंत के लिए बकाया आंकड़े वित्तीय और गैर-वित्तीय निगमों द्वारा जारी बॉण्ड पर सेबी के नए आंकड़ों की श्रृंखला पर आधारित हैं। मार्च 2023 के अंत के बकाया आंकड़े मार्च 2024 के अंत के बकाया आंकड़ों से 2023-24 के प्रवाह को समायोजित करके निकाले गए हैं।
 - बकाया आंकड़ों पर आधारित प्रवाह सारणी 18 (ए) में दिए गए प्रवाह से मेल नहीं खा सकते हैं, इसके कारण निम्नलिखित हैं:
 - 1 जुलाई, 2023 को एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक में विलय;
 - कुछ आवास वित्त कंपनियों का गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में रूपांतरण; और
 - विदेशी स्रोतों के मामले में मूल्यांकन प्रभाव।
 - गैर-वित्तीय गैर-सरकारी सार्वजनिक और निजी लिमिटेड कंपनियों के मामले में घरेलू देनदारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्तमान और गैर-वर्तमान व्यापार देय को आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

स्रोत: आरबीआई; सेबी; एआईएफआई; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।